



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2427/9-1-2020-73टी0ए0-2020

लखनऊ, 18 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-470

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 905, दिनांक 17 दिसम्बर, 1881 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 905, दिनांक 17 दिसम्बर, 1881 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का

का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल संविधान के भाग 9-‘क’ के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

### अनुसूची

#### नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़ में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

दिशा	राजस्व ग्राम एवं गाटा संख्यायें
उत्तर	बड़नपुर (अन्दर टाउन एरिया)—509, 532, 537, 539, 540, 544, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 578 से 583 तक, 585, 588, 591, 592, 598, 599, 601, 603, 604, 606, 612 से 614 तक, 616, 618, 619, 621, 622, 626, 629 से 631 तक, 633 से 635 तक, 638, 639, 641 से 658 तक, 661 से 663 तक, 666 से 668 तक, 669 से 674 तक, 676, 677, 679, 680, 683, 684, 533/1, 535/अ, 535ब, 535अ, 536मि, 536मि, 538ब, 538ब, 538मि, 538मि, 542मि, 542मि, 543ब, 543अ, 545/2, 547/1, 547/2, 548मि, 548मि, 548मि, 550मि, 552मि, 553मि, 553मि, 554/1, 554/2, 563/1, 563/2, 563/4, 565/4, 572/1, 572/2, 580/2, 580/2, 580ब, 580ब, 581/1, 581/2, 581/2, 581/2मि, 584ब, 584अ, 584अमि, 586/1, 586/2, 586मि, 586/2मि, 587/1, 587/2, 587/30, 596/2, 596/2, 601मि, 602/1, 605/1, 605/10, 605/11, 605/11मि, 605/2, 605/2मि, 605/4, 605/5, 605/7, 605/8, 605/9, 605ब/6, 605क/9, 605अ/6, 607/3, 607/3मि, 608/1, 608/2, 611/अ, 615/1, 615/2, 617/3, 617मि, 620/1, 620/10, 620/11, 620/12, 620/13, 620/14, 620/15, 620/16, 620/17, 620/2, 620/2मि, 620/3, 620/मि, 620/4, 620/5, 620/6, 620/7, 620/8, 621/1, 623मि, 623मि, 624/2, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 632ब, 632अ, 640ब, 660ब, 660अ, 662मि, 663मि, 669मि, 671मि, 671/1, 678ब, 678ब, 681ब, 681अ, 682ब, 682अ, 683ब
दक्षिण	खजोहरी (सम्पूर्ण)—1 से 1336 तक
पूरब	कमईपुर (सम्पूर्ण)—1 से 177 तक सरायसागर (आंशिक)—1 से 182 तक
पश्चिम	भुवालपुर किला (आंशिक)—687से 689 तक, 709, 710, 712 से 713 तक, 715, 717, 725, 728, 729, 731 से 734 तक, 736 से 741 तक, 750 से 753 तक, 755 से 757 तक, 759 से 761 तक, 765, 768 से 771 तक, 775, 778 से 780 तक, 782, 783, 787, 789, 790, 792, 795, 796, 797, 799, 800 से 803 तक, 808, 809, 812, 817 से 820 तक, 823 से 825 तक, 829, 831, 832, 834 से 842 तक, 844, 846 से 849 तक, 851, 852, 855 से 863 तक, 873, 875, 878, 881 से 882 तक, 887 से 889 तक, 891, 893, 894, 895, 900, 903, 905, 907 से 910 तक, 912 से 917 तक, 919 से 926 तक, 930 से 934 तक, 970, 984 से 985 तक, 987 से 995 तक, 999 से 1004 तक, 1115, 1117 से 1122 तक, 1125 से 1129 तक, 1131, 1137, 1138, 1116ख, 1116क, 1124मि, 1132क, 1133ख, 1133कमि, 1134क, 1135क, 1136क, 1139ख, 1139क, 1140ख, 1140क, 1141ख, 1141क, 612/1299, 690क, 714ख, 714क, 716क, 718ख, 718क, 722ग, 726ख, 730ख, 730क, 730ग, 735ख, 735ग, 749ख, 749क, 754ख, 754क, 762मि, 766घ, 766ख, 766क, 766ग, 767ख, 767क, 772घ, 772ख, 772ग, 773ख, 774क, 776ख, 776क, 777ख, 777क, 781ख, 781क, 785क, 786ख, 786क, 793ख, 793क, 794ख, 794क, 798ख, 798क, 807क, 810ख, 811मि, 826ख, 826क, 828मि, 833ख, 833कमि, 843ख, 843क, 845ख, 845कमि, 845ग, 850ख, 850क, 850ग, 851ख, 853मि, 853मि, 854खमि, 854मि, 865ख, 866क, 867ख, 868ख, 868कमि, 869कमि, 869गमि, 871ख, 871क, 872क, 874क, 876ग, 877क, 879घ, 879ङ, 879क, 880मि, 885क, 886कमि, 889क, 890ख, 890क, 890ग, 892घ, 892ख, 892क, 892ग, 893ख, 896ख, 896क, 897ख, 897क, 898ख, 899घ, 899ख, 899ङ, 986, 902ख, 902क, 904ख, 904क, 906ख, 906क, 906ग, 911ख, 911क, 918ख, 925ख, 927ख, 927क, 929ग, 969ख, 972खमि, 973मि, 983मि, 993ग

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2427/IX-1-2020-73T.A.-2020, dated December 18, 2020:

No. 2427/IX-1-2020-73T.A.-2020

*Dated Lucknow, December 18, 2020*

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 905, dated 17<sup>th</sup> December, 1881 and other previous notifications issued in this behalf for including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Katara Mediniganj, ditric Pratapgarh is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or Suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such Objections and Suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

#### DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and in partial modification of notification no. 905, dated 17<sup>th</sup> December, 1881 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Katara Mediniganj, district Pratapgrh for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

#### SCHEDULE

##### Area being included in Nagar Panchayat Katara Mediniganj, district Pratapgarh

Direction	Revenue Villages Plot No.
North	Badanpur (inner Town Area)—509, 532, 537, 539, 540, 544, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 578 to 583, 585, 588, 591, 592, 598, 599, 601, 603, 604, 606, 612 to 614, 616, 618, 619, 621, 622, 626, 629 to 631, 633 to 635, 638, 639, 641 to 658, 661 to 663, 666 to 668, 669 to 674, 676, 677, 679, 680, 683, 684, 533/1, 535/अ, 535ब, 535अ, 536मि, 536मि, 538ब, 538ब, 538मि, 538मि, 542मि, 542मि, 543ब, 543अ, 545/2, 547/1, 547/2, 548मि, 548मि, 548मि, 550मि, 552मि, 553मि, 553मि, 554/1, 554/2, 563/1, 563/2, 563/4, 565/4, 572/1, 572/2, 580/2, 580/2, 580ब, 580ब, 581/1, 581/2, 581/2, 581/2मि, 584ब, 584अ, 584अमि, 586/1, 586/2, 5862मि, 586/2मि, 587/1, 587/2, 587/30, 596/2, 596/2, 601मि, 602/1, 605/1, 605/10, 605/11, 605/11मि, 605/2, 605/2मि, 605/4, 605/5, 605/7, 605/8, 605/9, 605ब/6, 605क/9, 605अ/6, 607/3, 607/3मि, 608/1, 608/2, 611/अ, 615/1, 615/2, 617/3, 617मि, 620/1, 620/10, 620/11, 620/12, 620/13, 620/14, 620/15, 620/16, 620/17, 620/2, 620/2मि, 620/3, 620/मि, 620/4, 620/5, 620/6, 620/7, 620/8, 621/1, 623मि, 623मि, 624/2, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 632ब, 632अ, 640ब, 660ब, 660अ, 662मि, 663मि, 669मि, 671मि, 671/1, 678ब, 678ब, 681ब, 681अ, 682ब, 682अ, 683ब
South	Khajohri (Complete)—1 to 1336
East	Kamayipur (Complete)—1 to 177 Sri Sagar (Partial)—1 to 182
West	Bhuwalpur Quila Partial—687 to 689, 709, 710, 712 to 713, 715, 717, 725, 728, 729,

731 to 734, 736 to 741, 750 to 753, 755 to 757, 759 to 761, 765, 768 to 771, 775, 778 to 780, 782, 783, 787, 789, 790, 792, 795, 796, 797, 799, 800 to 803, 808, 809, 812, 817 to 820, 823 to 825, 829, 831, 832, 834 to 842, 844, 846 to 849, 851, 852, 855 to 863, 873, 875, 878, 881 to 882, 887 to 889, 891, 893, 894, 895, 900, 903, 905, 907 to 910, 912 to 917, 919 to 926, 930 to 934, 970, 984 to 985, 987 to 995, 999 to 1004, 1115, 1117, 1122, 1125 to 1129, 1131, 1137, 1138, 1116ख, 1116क, 1124मि, 1132क, 1133ख, 1133कमि, 1134क, 1135क, 1136क, 1139ख, 1139क, 1140ख, 1140क, 1141ख, 1141क, 612/1299, 690क, 714ख, 714क, 716क, 718ख, 718क, 722ग, 726ख, 730ख, 730क, 730ग, 735ख, 735ग, 749ख, 749क, 754ख, 754क, 762मि, 766घ, 766ख, 766क, 766ग, 767ख, 767क, 772घ, 772ख, 772ग, 773ख, 774क, 776ख, 776क, 777ख, 777क, 781ख, 781क, 785क, 786ख, 786क, 793ख, 793क, 794ख, 794क, 798ख, 798क, 807क, 810ख, 811मि, 826ख, 826क, 828मि, 833ख, 833कमि, 843ख, 843क, 845ख, 845कमि, 845ग, 850ख, 850क, 850ग, 851ख, 853मि, 853मि, 854खमि, 854मि, 865ख, 866क, 867ख, 868ख, 868कमि, 869कमि, 869गमि, 871ख, 871क, 872क, 874क, 876ग, 877क, 879घ, 879ङ, 879क, 880मि, 885क, 886कमि, 889क, 890ख, 890क, 890ग, 892घ, 892ख, 892क, 892ग, 893ख, 896ख, 896क, 897ख, 897क, 898ख, 899घ, 899ख, 899ङ, 986, 902ख, 902क, 904ख, 904क, 906ख, 906क, 906ग, 911ख, 911क, 918ख, 925ख, 927ख, 927क, 929ग, 969ख, 972खमि, 973मि, 983मि, 993ग
---

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*